

November 23, 2019

Asst. Vice President, Listing Deptt.  
**National Stock Exchange of India Ltd.,**  
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E),  
MUMBAI - 400 051  
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary,  
**BSE Limited**  
25<sup>th</sup> Floor,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
MUMBAI - 400 001  
Scrip Code: 500182

**Re: Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")**

**Sub: Submission of newspaper advertisement and intimation under Regulation 39(3) of Listing Regulations**

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement published regarding the requests for issue of duplicate share certificates in lieu of original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

Kindly note that duplicate share certificates will be issued to the respective shareholders in case no objections are received on the advertisement.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Ltd.



(Neerja Sharma)  
Company Secretary & Chief Compliance Officer



Encl.: As above



# Markets extend losses Blackstone

dropping 2.89%, followed by TCS, Asian Paints, Bharti Airtel and ONGC 2.18%. Vedanta 2.27% announced next week, is old credit crisis has dragged economic growth down to its slow-

## CSB Bank IPO fully subscribed on opening day

BY BUREAU  
Mumbai, November 22

**LED BY STRONG** retail investor participation, CSB Bank's ₹410-crore initial public offering (IPO) was fully subscribed on Day 1, with the offer receiving bids amounting to 1.20 crore equity shares against the 1.15 crore shares put on offer.

According to data from exchanges, retail investor category received bids amounting to 5.6 times the offered quantity, while non-institutional investor category received bids at just 0.10 times. The institutional investor category was yet to receive any bids, according to data available till 5 pm on November 22.

Earlier, the Kerala-based lender raised ₹184 crore from 24 anchor investors at a price of ₹195 per share, according to an exchange filing. Omers Administration Corporation, ICICI Prudential AMC, SBI Mutual Fund, Axis Mutual Fund and Sundaram Mutual Fund were a few of the anchor investors.

The bank's asset quality has been improving with its gross non-performing assets (NPA) falling to 2.86% as on September 30, 2019 as against 4.87% as on the end of March this year. Its total advances as on September 2019 amounted to ₹1,129 crore, which by large has been towards gold loans and small to midsize enterprises (SMEs) amounting to 33.17% and 29.47% of its total loan book.

According to HDFC Securities, CSB Bank has improved its growth by focusing on better yield loan products with low risk. "Therefore, the surplus funds parked in investments were re-deployed to advances with particular focus on gold loans and corporate advances to entities with high credit ratings which have low risk weights to minimize capital consumption," the report indicated.

## Investments via P-notes rise in October after falling for 4 months

BY PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, November 22


**AFTER DECLINING** FOR four consecutive months, invest-

Hero MotoCorp Limited						
Regd. Office - 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057						
CIN: L35911DL1984PLC017354   Phone: 011-46044100   Fax: 011-26143321						
E-mail: secretarial@heromotocorp.com   Website: www.heromotocorp.com						
PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES						
Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ("Company") are hereby informed that the original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share certificates in lieu of the said original Share Certificates in their favour:						
S. No.	Folio No.	Shareholders Name	Distinctive Nos.		Certificate No.(s)	No. of Shares
			From	To		
Shares of Face Value of Rs. 10/- each						
1	HML0137351	RAMANLAL S SHAH RITA H SHAH	2212866	2212815	44261	50
			19943165	19943174	308059	10
			19943175	19943176	308060	2
			35206460	35206509	413298	50
			35206510	35206521	413299	12
2	HML0107474	MADAN MOHAN SHARMA	15378554	15378583	170705	30
			19766971	19766975	304098	5
			19766976	19766977	304099	2
			34259456	34259492	394091	37
3	HML0102601	HARKESH SODHI	34249447	34249496	393891	50
			34249497	34249508	393892	12
4	HML0035722	RATNAMALA BHUJBAL KRISHNAKANT KUDALE	20445499	20445535	328485	37
			34856588	34856589	406206	2
Shares of Face Value of Rs. 2/- each						
6	HML0014520	VITHAL NARAYAN BHAT	43736146	43736395	506160	250
			47178671	47178790	513159	120
7	HML0081036	S A MURALIDHARA	158665226	158666575	516522	1350
			166067021	166069040	526871	2020
9	HML0011840	PRABHAVATI CHAMPAKLAL SUPARIWALA	43550666	43550785	505780	120

Any person having objections to the issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office within 15 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

For Hero MotoCorp Ltd.  
Sd/-  
Neerja Sharma  
Company Secretary & Chief Compliance Officer

Place: New Delhi  
Date: 22.11.2019



### NOTICE

#### Declaration of Dividend:

Notice is hereby given that the Board of Directors of IDFC AMC Trustee Company Limited (Trustee to IDFC Mutual Fund) has approved the declaration of dividend under the Dividend option(s) of the following Scheme(s)/Plan(s), subject to availability of "distributable surplus, with the Record Date as Thursday, November 28, 2019.

Scheme(s) Name	Plan(s)	Option	Quantum of Dividend* (Rs. per Unit)	NAV (In Rs.) Per Unit as on November 21, 2019
IDFC Arbitrage Fund	Regular	Monthly Dividend	0.0533	12.8100
IDFC Arbitrage Fund	Direct	Monthly Dividend	0.0553	13.2831
IDFC Equity Savings Fund	Regular	Monthly Dividend	0.03	12.53
IDFC Equity Savings Fund	Direct	Monthly Dividend	0.03	13.05
IDFC Bond Fund- Medium Term Plan	Regular	Bi- Monthly Dividend	0.1930	12.0200
IDFC Bond Fund- Medium Term Plan	Direct	Bi- Monthly Dividend	0.2106	12.3747

Face Value per unit is Rs. 10/-.

\* Dividend Distribution Tax & other statutory levies (if any) shall also be paid out of such distributable surplus. Considering the volatile nature of markets, Trustee reserves the right to restrict the quantum of dividend upto the per unit distributable surplus available on the Record Date in case of fall in market.

# If in any case the Record Date falls on a non-business day, the immediately following business day shall be deemed to be the Record Date.

All investors whose names appear in the register of unit holders of the Scheme(s)/Plan(s)/Option(s) as on the close of the record date will be eligible to receive the dividend.

For further details regarding the declaration of dividend, NAV of the Scheme(s)/Plan(s)/Option(s)

### POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED

Website: www.ace-cranes.com

### SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS

being made in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2002, from time to time ("Buyback")

Announcement dated May 17, 2019 (the "Announcement"), defined herein, capitalized terms and conditions.

Under the Companies Act, 2013, as amended (the "Companies Act"), and the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2002, as amended (the "Regulations"), Article 62 of the Articles of Association of the Company (the "Board" or the "Board of Directors") and promoter group, from time to time, for a total amount not exceeding the Maximum Buyback Size", and at a price not less than the Buyback Price", payable in cash (the "Buyback Price"), stamp duty and other

on November 22, 2019. The Buyback Price is ₹ 86.70 per Equity Share. The Buyback Size is Twenty Nine Lakh Fifteen Thousand Four Hundred and Eighty Two Equity Shares, which is 97.20% of the Maximum Buyback Size.

The Buyback Price is ₹ 86.70 per Equity Share. The Buyback Size is Twenty Nine Lakh Fifteen Thousand Four Hundred and Eighty Two Equity Shares, which is 97.20% of the Maximum Buyback Size. The Buyback Price is ₹ 86.70 per Equity Share. The Buyback Size is Twenty Nine Lakh Fifteen Thousand Four Hundred and Eighty Two Equity Shares, which is 97.20% of the Maximum Buyback Size.

The Buyback Price is ₹ 86.70 per Equity Share. The Buyback Size is Twenty Nine Lakh Fifteen Thousand Four Hundred and Eighty Two Equity Shares, which is 97.20% of the Maximum Buyback Size. The Buyback Price is ₹ 86.70 per Equity Share. The Buyback Size is Twenty Nine Lakh Fifteen Thousand Four Hundred and Eighty Two Equity Shares, which is 97.20% of the Maximum Buyback Size.

The completion of the Buyback is set forth below:

Particulars	₹ In Lakhs	
	Pre Buyback	Post Buyback
Equity Shares	2,500.00	2,500.00
Debt	3,025.00	3,025.00
Total	2,346.46	-
		2269.66

As a result of the total of 38,39,804 Equity Share Buyback, the shareholding pattern of the Company post

Particulars	Post Buyback	
	No. of Equity Shares	% of the post Buyback Equity Capital
Equity Capital	8,18,71,944	72.14%

